

प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक 07.01.2023

50 किलो अवैध गांजा मय चार पहिया वाहन के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार (थाना देल्हूपुर)

थानाध्यक्ष श्री धीरेन्द्र ठाकुर मय हमराह एवं स्वॉट टीम प्रभारी श्री सुनील यादव मय टीम द्वारा संयुक्त रूप से देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थानाक्षेत्र के प्रयागराज-प्रतापगढ़ सीमा गनेशगंज के पास से प्रयागराज की तरफ से आ रही मारुती सुजुकी कार में सवार 03 व्यक्तियों को 50 किलो अवैध गांजा मय वाहन के साथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना देल्हूपुर पर मु0अ0सं0 04/2023 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा बरामद वाहन को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

- 1 – महेन्द्र गौतम पुत्र उदय राज गौतम निवासी मरखापुर, बदलापुर, जनपद जौनपुर।
- 2 – अनिल गौतम पुत्र स्व0 रामफेर गौतम निवासी बनपुरवा, थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।
- 3 – मनोज पाल पुत्र स्व0 जनदीश पाल निवासी वाजिदपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

01. 50 किलो अवैध गांजा।
02. 01 अदद स्विफ्ट कार वाहन संख्या – यूपी डीएल 3सी बीडी 0777।

पुलिस टीम-

- 1 – थानाध्यक्ष श्री धीरेन्द्र ठाकुर मय हमराह थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़।
- 2 – स्वॉट टीम प्रभारी श्री सुनील यादव मय टीम हे0का0 पंकज दूबे, का0अरविन्द दूबे, का0 सत्यम यादव, का0 राम सिंह, का0 जागीर सिंह, का0राजेन्द्र कुमार स्वॉट टीम प्रतापगढ़।

लूट की घटना का सफल अनावरण/ घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल, लूट के 47690/- रुपये, अन्य विभिन्न दस्तावेज तथा अवैध शस्त्र के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार (थाना देल्हूपुर)

दिनांक 04.01.2023 को थाना देल्हूपुर क्षेत्रान्तर्गत फाइनेन्स कम्पनी के सेल्स मैनेजर से हुई लूट के प्रकरण में थाना देल्हूपुर पर प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 03/2023 धारा 392 भादवि बनाम अज्ञात के अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री सतपाल अंतिल द्वारा उक्त घटना के त्वरित अनावरण तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर संबंधित को कड़े निर्देश दिये गये थे, इसी क्रम में कल दिनांक 06.01.2023 को थानाध्यक्ष देल्हूपुर श्री धीरेन्द्र ठाकुर व उ0नि0 राकेश चौरसिया, उ0नि0 देवेन्द्र प्रताप सिंह मय हमराह व

स्वॉट टीम प्रभारी श्री सुनील यादव मय टीम के द्वारा संयुक्त रूप से देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर स्वॉट/सर्विलांस टीम के निरन्तर प्रयास एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के परिशीलन से प्रकाश में आये उपरोक्त अभियोग से संबंधित 03 अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल यूपी 72 बीपी 8696, लूट के 47690/- रुपये, 01 बैग, 12 आधार कार्ड, 11 निर्वाचन कार्ड, विभिन्न बैंकों के 11 पासबुक, 03 मोबाइल फोन व वादी मुकदमा का परिचय पत्र तथा 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ थाना क्षेत्र के तौकलपुर पावर हाउस के पास से गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामद अवैध शस्त्र के संबंध में अभियोग उपरोक्त में धारा 411,120बी भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई है।

पूछताछ का विवरण –

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि दिनांक 04.01.2023 को दोपहर में रतिपुर हनुमान मंदिर के पास हम तीनों ने मिलकर स्पन्दना स्फूर्ति फाइनैस लिमिटेड के सेल्स मैनेजर जो अपनी मोटर साइकिल के साथ प्रतापगढ़ जा रहा था, को रोककर तमंचा लगाकर उसका बैग छीन कर भाग गये थे, इस घटना में हमारे गांव का एक और साथी सुमित शामिल था, हम चारों ने मिलकर उक्त घटना की योजना बनाई थी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण –

1 – फरदीन उर्फ अब्दुल रहमान पुत्र सफीर अहमद निवासी तौकलपुर थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।

2 – देशराज पुत्र लालबहादुर निवासी तौकलपुर थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।

3 – कौशल कन्नौजिय पुत्र रामलाल कन्नौजिया निवासी तौकलपुर थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी - घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल यूपी 72 बीपी 8696, लूट के 47690/- रुपये, 01 बैग, 12 आधार कार्ड, 11 निर्वाचन कार्ड, विभिन्न बैंकों के 11 पासबुक, 03 मोबाइल फोन व वादी मुकदमा का परिचय पत्र तथा 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

पुलिस टीम-

1 – थानाध्यक्ष श्री धीरेन्द्र ठाकुर, उ0नि0 राकेश चौरसिया, उ0नि0 देवेन्द्र प्रताप सिंह मय हमराह थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़।

2 – स्वॉट टीम प्रभारी श्री सुनील यादव मय टीम हे0का0 पंकज दूबे, का0 अरविन्द दूबे, का0 सत्यम यादव, का0 राम सिंह, का0 जागीर सिंह, का0 राजेन्द्र कुमार स्वॉट टीम प्रतापगढ़।

01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार (थाना मान्धाता)

जनपद के थाना मान्धाता के थानाध्यक्ष श्री पुष्पराज सिंह मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 09/23 धारा 376, 366, 504, 506, 120बी भादवि व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त मनीष शाह पुत्र अन्नू उर्फ अनवर शाह नि0 बेनीपुर थाना अमेठी जनपद अमेठी को थानाक्षेत्र मान्धाता के कौली मोड़ तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया।